

## तस्करी / जयपुर में 24.30 लाख रुपए के नकली नोट बरामद, पुलिस की गिरफ्त में दो आरोपी



पुलिस की गिरफ्त में दोनों तस्कर(नीचे बैठे हुए)

- कमिश्नरेट की सीआईयू टीम की सूचना पर चौमूं पुलिस की कार्रवाई
- 2-2 हजार रुपए के नोटों की गड्डी बरामद, जयपुर में चलाना था

Hindi News | Local | Rajasthan | Jaipur

Fake notes recovered in jaipur, two accused arrested in chomu

Oct 08, 2018, 08:28 PM IST

**जयपुर.** राजधानी में पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद की है। यह कार्रवाई जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीआईयू टीम की सूचना पर चौमूं थाना पुलिस ने की। जिन्होंने दो तस्करों के कब्जे से 24.30 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। इनमें दो-दो हजार रुपए के नकली नोटों की गड्डी थी। पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर सीकर रोड पर टाटियावास टोल नाके पर इन दोनों युवकों को धरदबोचा।

### जयपुर के बाजार में असली नोटों के रुप में चलाने की प्लानिंग बना रखी थी तस्करों ने

डीसीपी (पश्चिम) अशोक गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आसू जैफ (40) सीकर जिले के नीमकाथाना में कृष्णा कॉलोनी, नया बास का रहने वाला है। वहीं, दूसरा आरोपी सुनील कुमार मीणा (36) सीकर जिले में नीमकाथाना कस्बे में डांगी कॉलोनी वार्ड नंबर 13 का रहने वाला है।

जानकारी के अनुसार कमिश्नरेट की सीआईयू टीम में तैनात कांस्टेबल मनेंद्र सिंह को नकली नोटों की तस्करी की सूचना मिली थी। तब पुलिस टीम ने सीकर रोड पर नाकाबंदी करवाई। जहां एक गाड़ी से नकली नोटों की खेप लेकर आ रहे बदमाशों को रुकवाया।

तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 2-2 हजार रुपए के नोटों की गड्डी के नकली नोट बरामद किए।

जिनकी गिनती करने पर 24.30 लाख रुपए के नोट होना सामने आया।

एसीपी महावीर शर्मा ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी आसू जैफ नीमकाथाना निवासी सुनील कुमार मीणा से नकली नोटों की खेप लेकर आ रहा था।

इन्होंने जयपुर के बाजार में इन नकली नोटों को चलाने की प्लानिंग बना रखी थी। आरोपियों के खिलाफ धारा 489 ए.बी.सी.डी.ई. आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर पड़ताल की जा रही है।

कांस्टेबल मनेन्द्र सिंह की सूचना पर यह कार्रवाई सीआईयू टीम प्रभारी एसीपी महावीर सिंह, एसआई राजेश कुमार, एसआई द्वारका प्रसाद, एसआई पुरुषोत्तम शर्मा, हैडकांस्टेबल उदय सिंह, कांस्टेबल राजकुमार मांडिया व मनेंद्र सिंह तथा एसीपी चौमूं महावीर शर्मा के निर्देशन में सबइंस्पेक्टर दातार सिंह, हैडकांस्टेबल पवन काजला व कांस्टेबल राकेश कुमार की संयुक्त टीम ने की।

खबर व फोटो: विष्णु शर्मा